

विधायी संशोधनों द्वारा बाधाओं को हटाना

विधायी संशोधन पर, ऐसे पोर्टेबल उपकरण के मालिक इसे हर समय उचित कार्यरत स्थिति में रखने और प्रत्येक 12 महीनों में कम से कम एक बार RFSIC द्वारा निरीक्षण करने के वैधानिक कर्तव्य से मुक्त होंगे।

पोर्टेबल(वहनीय) उपकरणों पर अनुमोदन प्रक्रिया

- पोर्टेबल उपकरण कोई भी अग्निशमन सेवा उपकरण है जो आग बुझाने, हमला करने, रोकने या आग को सीमित करने के प्रयोजनों के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उपयोग करने के लिए निर्मित, उपयोग या डिज़ाइन किया जाता है।
- उत्पाद प्रदर्शन और सुरक्षा की रक्षा के लिए, सभी पोर्टेबल उपकरणों को हांगकांग में बिक्री या आपूर्ति से पहले अग्निशमन सेवाओं के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- अनुमोदित पोर्टेबल उपकरणों की एक सूची निदेशक द्वारा रखी जाएगी और सार्वजनिक संदर्भ के लिए हर साल कम से कम एक बार सरकारी सूचनापत्र में प्रकाशित की जाएगी।

यह छूट निम्न के लिए लागू नहीं है:



- न्यूनतम अग्निशमन सेवा स्थापन और उपकरणों के लिए अभ्यास संहिता के अनुसार स्थापित पोर्टेबल उपकरण



- परिसर जिनमें विभिन्न विधानों के तहत लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है



- घरेलू इमारत के सामान्य क्षेत्र में स्वैच्छिक रूप से स्थापित पोर्टेबल उपकरण, जैसे सामान्य गलियारे, लॉबी, सीढ़ियां आदि।

पोर्टेबल उपकरणों की जाँच



- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोर्टेबल उपकरण उचित कार्यरत स्थिति में है, FSD घरेलू परिसरों में स्थापित पोर्टेबल उपकरणों के मालिकों को नियमित रूप से उन उपकरणों की स्व-जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है।



- यदि अग्निशामक यंत्र में जंग, रिसाव या क्षति का पता चलता है, तो इसका उपयोग तुरंत बंद करें और एक पंजीकृत अग्निशमन सेवा स्थापना ठेकेदार द्वारा विस्तृत निरीक्षण की व्यवस्था करें।



घरेलू परिसरों में पोर्टेबल(वहनीय) उपकरणों के व्यापक स्वैच्छिक उपयोग को बढ़ावा देना





स्टैंड-अलोन फायर डिटेक्टरों (आग को भांपने वाले उपकरण) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना

- अग्निशमन सेवा (स्थापना और उपकरण) विनियम को 2021 में इस आशय से संशोधित किया गया था कि किसी भी इमारत/परिसर के मालिकों / रहने वालों को स्वेच्छा से स्थापित किसी भी स्टैंड-अलोन फायर डिटेक्टरों की स्थापना, रखरखाव, निरीक्षण या मरम्मत के लिए पंजीकृत अग्निशमन सेवा स्थापना ठेकेदारों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- । इसके अलावा, ऐसे उपकरणों के मालिकों को उपकरणों को हर समय उचित कार्यरत स्थिति में रखने और हर 12 महीने में कम से कम एक बार RFSICs द्वारा उनका निरीक्षण करने के वैधानिक कर्तव्य से भी छूट दी जाएगी।

घरेलू परिसरों के लिए लक्षित अग्नि सुरक्षा उपाय

FSD "आपातकालीन तैयारी पर तीन बुनियादी कौशल" का उपयोग करके आग का जवाब देने के लिए रहने वालों की सुविधा के लिए अधिक लक्षित अग्नि सुरक्षा उपायों को तैयार करने की आवश्यकता को देखता है।



घरेलू परिसरों में पोर्टेबल(वहनीय) उपकरणों के व्यापक स्वेच्छिक उपयोग को बढ़ावा देना

- पोर्टेबल (वहनीय) उपकरण, जैसे अग्निशामक यंत्र और कंबल, प्रारंभिक चरण में आग बुझाने में प्रभावी होते हैं और आम नागरिकों के लिए अपने घरेलू परिसर में अनुमोदित पोर्टेबल उपकरण रखना सुरक्षित और विवेकपूर्ण होता है।
- घरेलू परिसरों में जनता की अपनी इच्छा से पोर्टेबल उपकरणों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने से नागरिकों के घरों में प्रभावी रूप से अग्नि सुरक्षा कवरेज का विस्तार हो सकता है।

FSD सुरक्षित स्थिति में पोर्टेबल उपकरण सहित FS/IE को संचालित करने के लिए जनता के सदस्यों को शिक्षित कर रहा है।



। पोर्टेबल उपकरण के मालिकों को अग्निशमन सेवा (स्थापना और उपकरण) विनियमों के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है और उन वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजीकृत अग्निशमन सेवा स्थापना ठेकेदार को नियुक्त करने में शामिल लागत वहन करना आवश्यक है। इस संबंध में, FSD ने विधायी संशोधन के माध्यम से घरेलू परिसरों में अनुमोदित पोर्टेबल उपकरणों के स्वेच्छिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है।

यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक अग्निशमन सेवा विभाग से संपर्क करें:

ईमेल: domestic_portable_e@hkfsd.gov.hk



हांगकांग अग्निशमन सेवा विभाग
(FSD)



स्टैंड-अलोन फायर डिटेक्टरों (आग को भांपने वाले उपकरण) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना